

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019 — आषाढ़ 28, शक 1941

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2019

आदेश

क्रमांक एफ-5-7/आठ-परि./2018. — राज्य शासन, एतद्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के परिपालन में सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों, उपायों एवं अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्णकालिक रूप से सड़क सुरक्षा कार्य हेतु अंतर्विभागीय लीड एजेंसी का गठन करता है।

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (छठवां वेतनमान)
1	संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति	01	15600-39100 ग्रे.पे. 6600
2	कार्यपालन अभियंता/अधीक्षक अभियंता नेशनल हाईवे/लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	01	15600-39100 ग्रे.पे. 6600
3	चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	01	15600-39100 ग्रे.पे. 5400
4	सहायक संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	01	15600-39100 ग्रे.पे. 5400
5	अवर सचिव (प्रतिनियुक्ति पर)	01	15600-39100 ग्रे.पे. 6600
6	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	01	9300-34800 ग्रे.पे. 4300
7	निरीक्षक/सूबेदार (याता.), पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर	01	9300-34800 ग्रे.पे. 4300
8	सहायक वर्ग-2	01	5200-20200 ग्रे.पे. 2400
9	सहायक वर्ग-3	01	5200-20200 ग्रे.पे. 1900
10	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	5200-20200 ग्रे.पे. 2400
11	वाहन चालक	02	5200-20200 ग्रे.पे. 1900
12	भृत्य (क्लेक्टर दर पर)	02	क्लेक्टर दर पर
13	विशेषज्ञ, सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य (संविदा पर)	01	—

(वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 582/08-00346/वित्त ब-4/2018, दिनांक 23-07-2018 द्वारा सहमति प्राप्त)

- उपर्युक्त पदों के अनुसार गठित लीड एजेंसी विशेष रूप से सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों/मामलों पर ही कार्यों का निष्पादन करेगी। यह एजेंसी सड़क सुरक्षा परिषद से संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों तथा राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने इत्यादि का कार्य करेगी।

3. लीड एजेंसी द्वारा निम्न कार्य प्रमुख रूप से किए जाएंगे –

- (क) सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करना, परिषद की बैठक आयोजित कराना, परिषद के निर्णयों का क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय तथा विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सतत समीक्षा एवं मॉनिटरिंग। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी कार्यों/गतिविधियों का संचालन, मान. सुप्रीम कोर्ट के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति, केन्द्र शासन तथा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का सतत रूप से अनुपालन करना तथा समयावधि में अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करना।
- (ख) सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण, एवं लक्ष्यों के अनुरूप कार्यवाही की मॉनिटरिंग, दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण एवं उपाचारात्मक उपाय तथा उन सड़कों/क्षेत्रों एवं दुर्घटना पीड़ित की श्रेणी की पहचान करना जिस पर कार्यवाही केन्द्रित किया जाना है।
- (स) ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना जन्य स्थल) की पहचान, उनके सुधारात्मक एवं उपाचारात्मक उपाय करना। बड़ी दुर्घटनाएं होने की दशा में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण तथा स्थल के सुधार हेतु कार्यवाही।
- (द) सड़क सुरक्षा कोष से व्यय का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
- (ई) लीड एजेंसी हेतु पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में कक्ष/कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा।

4. सृजित पदों पर नई नियुक्ति नहीं की जायेगी अपितु संबंधित संवर्गीय पदों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन पदों पर पदस्थापन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.